

योनैक्स के नकली उत्पाद के साथ व्यापारी गिरफ्तार

Publish Date: Mon, 07 Dec 2020 10:30 PM (IST) Author: Jagran

शहर में जापान की नामी कंपनी योनैक्स के नाम से नकली शटल काक बेचने का राजफाश हुआ है।

मेरठ, जेएनएन। शहर में जापान की नामी कंपनी योनैक्स के नाम से नकली शटल काक बेचने का राजफाश हुआ है। कंपनी की टीम ने पुलिस के साथ ट्रांसपोर्ट नगर से एक व्यापारी को गिरफ्तार कर उसके पास से नकली शटल काल के तीन सौ डब्बे बरामद किए हैं, यह माल अन्य जनपदों में भेजने के लिए सिविल लाइन एरिया स्थिति एक कंपनी से लाया गया था। आरोपित की गिरफ्तारी के बाद पुलिस नकली माल बनाने वाली कंपनी पर छापेमारी की तैयारी कर रही है।

एसओ विजय गुप्ता के मुताबिक जापान की स्पोर्ट्स कंपनी योनैक्स को जानकारी मिली थी कि उनकी कंपनी का लेबल लगाकर मेरठ में नकली माल बेचा जा रहा है। कंपनी का लीगल कार्य देख रही ब्रांड प्रोटेक्टर इंडिया कंपनी, गुरुग्राम (हरियाणा) के अधिकारियों ने गोपनीय जानकारी जुटाई। सोमवार दोपहर जांच अधिकारी ने एसओ टीपीनगर को साथ लेकर ट्रांसपोर्ट नगर में छापा मारा तो पुलिस ने योनैक्स के 300 डब्बे शटल काक के बरामद किए, जिन पर कंपनी का लेबल लगाकर नकली माल तैयार किया गया था, जो ट्रांसपोर्ट नगर से ट्रक में लोड होने जा रहा था। पुलिस ने ब्रह्मपुरी सरस्वती लोक निवासी व्यापारी वैभव जैन को गिरफ्तार कर मुकदमा दर्ज कर लिया। वैभव ने बताया कि सिविल लाइन एरिया स्थित एक कंपनी में माल तैयार होता है। इस राजफाश के बाद पुलिस नकली माल बनाने वाली फैक्ट्री की जांच पड़ताल में जुट गई है।

एसपी देहात ने किया हस्तिनापुर थाने का निरीक्षण : एसपी देहात केशव कुमार मिश्रा सोमवार शाम थाने पर पहुंचे, जहां उन्होंने महिला हेल्प डेस्क के बारे में जानकारी की। उन्होंने बताया कि थाने पर आने वाले पीड़ितों की समस्याओं को तत्परता से सुना जाए। महिला हेल्प डेस्क पर प्राप्त हो रही सभी शिकायतों व उनके निस्तारण का लेखा जोखा भी व्यवस्थित रखा जाए। सीओ मवाना उदय प्रताप सिंह, निरीक्षक बीएल शाह, एसएसआइ रविंद्र कांबोज, विरेन्द्र सिंह, रविंद्र कुमार, विपिन पोसवाल आदि मौजूद रहे।

Source: <https://www.jagran.com/uttar-pradesh/meerut-city-merchant-arrested-with-yonex-fake-product-21144096.html>